



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 1977/आषाढ़ 23, 1899

No. 119] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 1977/ASADHA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th July 1977

**No. DRAWBACK/PN-29/77.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules 1971 (Notification No 52/F No 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time —

For Sub-Serial No 3611, 3613 and 3614 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely —

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3611(a)	Steel bars and rods not otherwise specified (Round, square and flats) other than spring steel bars.	Rs. 315 00 (Rupees Three Hundred and Fifteen only) per metric tonne.
(b)	Mild Steel Wire not otherwise specified	
(i)	Ungalvanised . . . . .	Rs. 315 00 (Rupees Three Hundred and Fifteen only) per metric tonne.
(ii)	Galvanised . . . . .	Rs. 600 00 (Rupees Six Hundred only) per metric tonne.

The above rates of drawback are subject to the condition that the rebate of the Central Excise duty paid on the raw materials used in the manufacture of the product or the rebate of Central Excise duty paid on the export product itself, has not been availed of under the Central Excise Rules, 1944 and the export is not made under bond.

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3613.	Steel Structural light and heavy non-fabricated—	
	(i) Ungalvanised . . . . .	Rs. 300/- (Rupees Three Hundred only) per metric tonne.
	(ii) Galvanised . . . . .	Rs. 464/- (Rupees Four Hundred and Sixty Four only) per metric tonne.
3614.	Bright Steel bars and shafts made from mild steel .	Rs. 324.00 (Rupees Three Hundred and Twenty Four only) per metric tonne.

The above rates of drawback at Sub-Serial No. 3613 and 3614 are subject to the condition that the rebate of Central Excise duty paid on the raw-materials used in manufacture of products or the rebate of Central Excise duty paid on the export product itself at Sub-Serial No. 3613 and 3614, has not been availed of under the Central Excise Rules, 1944 and the export is not made under bond.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 11th day of May, 1977.

C D RANGACHARI, Dy Secy.

### राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1977

[सं० प्रतिभ्रदायगी/सा० सू०-29/7.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभ्रदायगी सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 3611, 3613 और 3614 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिभ्रदायगी की दर
3611 (क)	इस्पात की कमानी छोड़ो से भिन्न अन्यथा अविनिर्दिष्ट इस्पात की छोड़ो और शलाकाए (गोल, चौकोर और चपटी)	315 00 रु० (केवल तीन सौ पन्द्रह रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
(ख)	अन्यथा अविनिर्दिष्ट नरम इस्पात की तार	
	(i) अजस्तीकृत . . . . .	315.00 रु० (केवल तीन सौ पन्द्रह रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	(ii) जस्तीकृत . . . . .	600 00 रु० (केवल छः सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन।

प्रतिभ्रदायगी की उपर्युक्त दरे तभी लागू होगी जबकि उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर अदा किए गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट अथवा निर्यात किये जाने वाले उत्पाद पर ही अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट का लाभ केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत नहीं उठाया गया हो और निर्यात बंध-पत्र के अन्तर्गत नहीं किया गया हो ।

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिभ्रदायगी की दर
3613.	इस्पात की हल्की और भारी संरचनाएं—अनगढ़ी	
(i)	अजस्तीकृत . . . . .	300.00 रु० (केवल तीन सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
(ii)	जस्तीकृत . . . . .	464.00 रु० (केवल चार सौ चौसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3614.	नरम इस्पात से बनी चमकीली छड़े और शाफ्ट	324.00 रु० (केवल तीन सौ चौबीस रुपए) प्रति मीट्रिक टन ।

उपक्रमांक सं० 3613 तथा 3614 के अन्तर्गत आने वाली प्रतिभ्रदायगी की उपर्युक्त दरे तभी लागू होगी जबकि उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट अथवा उपक्रमांक सं० 3613 तथा 3614 के अन्तर्गत आने वाले निर्यात किये जाने वाले उत्पाद पर ही अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट का लाभ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत नहीं उठाया गया हो और निर्यात बंध-पत्र के अन्तर्गत नहीं किया गया हो ।

यह सार्वजनिक सूचना मई, 1977 के 11वें दिन से लागू हुई समझी जाएगी ।

सी० डी० रंगाचारी, उप-सचिव ।

